

ट्रक-कार की भिड़ंत में तीन घायल

एटा। जैथरा थानाक्षेत्र के अंतर्गत अलीगंज मार्ग पर सोमवार शाम तेज गति से जा रहे ट्रक ने काफ़ी को रौंद दिया। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। इसके अलावा अन्य स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में जख्मी दो लोगों में एक की हालत ख़तरे में देखते हुए उसे जिला अस्पताल से आराम रेफर कर दिया गया। सोमवार शाम करीब 530 बजे अलीगंज कोतावली क्षेत्र के छोट सोमवार निवासी राजकिशोर पुत्र छोट तमिहरा से से एटा से वापस लौट रहा

था। उसके साथ गांव का ही पवन कुमार पुत्र संतोष तथा मनमोहन पुत्र रामस्वरूप भी था। जैसे ही कार अलीगंज मार्ग पर जैथरा और धुमरी के मध्य पहुंची कि तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया। हादसे में घायल राजकिशोर, पवन तथा मनमोहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

इसके अलावा पिलुआ कस्बा के निकट दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में सोमवार देर शाम ग्राम

नाला सैया निवासी जयकाश पुत्र गोविंद सिंह धायल हो गया। उसे पत्नियों में द्वाया जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत कासगंज मार्ग पर स्थित ग्राम गिरौरी के निकट ट्रैक्टर की चपेट में आकर मोटरसाइकिल पर सवार पिलुआ क्षेत्र के ग्राम दरबपुर निवासी विजयकाश पुत्र जंग सिंह धायल हो गया। धायल विजयकाश की हालत खतरे में देखते हुए जिला अस्पताल से आगरा रेफर कर दिया गया।

मुख्यमंत्री योजना
प्रगति समीक्षा कल

एटा। जिला विकास अधिकारी राधेश्याम ने बताया है कि 26 मार्च गुरुवार को कल अपरान्ह 12 बजे कलैक्ट्रेट सभाकक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना आदि की 20 मार्च 2015 तक की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है।

किसानों को मुआवजा न मिला तो भाजपा करेगी जनसंघर्ष : पूनम बजाज

मथुरा। किसान विरोधी ये सरकार बर्खास्त हो, पीड़ित किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो जैसे गगन भेदी नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर प्रदर्शन किया व ज्ञापन सौंपा।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश
नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा
बलदेव विधानसभा ने अपने सभी
मंडल अध्यक्ष सभा, फरह, महावन,
बलदेव, गोकुल, जुमसना मंडलों के
समस्त उपस्थितिकारी एवं कार्यकर्ताओं
ने महावन पैठ पहुँच कर वहाँ से
प्रदर्शन के रूप में महावन हाजीर के
परगना अधिकारी चन्द्र विजय सिंह
को महामहिम राज्यपाल के नाम,
जिलाधिकारी को जिला मथुरा
प्रशासन द्वारा मुख्या सचिव उत्तर प्रदेश
को मार्च के प्रथम सप्ताह 2015 में
दैवीय आप्रवास के शिकार किसी भी

चाकू से प्रहार कर युवक को किया घायल

एटा। बागवाला थानाक्षेत्र में रंजिश के चलते चाकू से हमलाकर युवक को घायल कर दिया। इसके अलावा अन्य घटनाओं में मां-बेटा समेत तीन जखमी हुए हैं।

सोमवार सुबह ग्राम उदतपुर निवासी अमर सिंह पुत्र महावीर बागनपुर मोड़ पर खड़ा हुआ था। तभी विरोधी पक्ष का खेतपाल पुत्र रक्षपाल वहां आ धमका। आरोप है कि पुराने रंजिश के चलते खेतपाल ने चाकू से हमला कर उसे लहलुहा कर दिया। परिजनों ने हमले में घायल अमर सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना का अभियोग घायल अमर सिंह ने खेतपाल के खिलाफ पंजीत कराया है। बागवाला के थाना प्रभारी रामसिंह मौर्य ने बताया कि पुलिस आरोपी खेतपाल को गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है। दूसरी ओर ग्राम सुजुनपुर में मंगलवार सुबह लाठी-डंडों से हमला कर अरविंद उर्फ बंदू पुत्र सुखेंद्र सिंह को घायल कर दिया। परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एसओ बागवाला ने बताया कि हमले की कोई तहरीर घायल की ओर से मंगलवार शाम तक पुलिस को नहीं दी गई है। वहीं मारवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेलेमपुर पिरौदा में हुई मारपीट में घायल धनंजय पुत्र जानकी प्रसाद तथा उसकी मां धनदेवी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

डीएम आज करेंगी निरीक्षण

एटा। डीएम निधि केसरवानी 25 मार्च को आज अपराह्न में जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत रूद्रपुर में सीसी रोड व नाली कार्य का निरीक्षण करेंगी।

व्यापार बंधु बैठक आज

एटा। असिस्टेंट कमिशनर
वाणिज्य कर ने बताया है कि 25 मार्च
को आज दोपहर साढ़े तीन बजे से
व्यापार बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट
सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी।

आज कृष्ण गंगा घाट
पर साधु-संत करेंगे
यमुना में महा स्नान

मधुरा। यमुना शुद्धि संकल्प विमर्शन
2015 के प्रथम चरण पूर्ण होने के
अन्तर्गत् अनेक बुधवार को क्षेत्रांगणा
घाट पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के
मध्य यमुना छद्म महोत्सव मनाया जाएगा।
उक्त संवेद्यों में जानकारी देते हुए पं.अनिल
शर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम प्रातः 9 बजे
यमुनोत्री जल व विभिन्न यमुना स्त्रोतों
द्वारा प्राप्त वाली यमुना घन गंगा गवयघट
पर संत-महात्मा द्वारा भगवद् विशाल
महानामा किया जाएगा तत्पश्चात् यमुना
जी के ब्रज में आगमन पर मां यमुना जी
का पूजन विभिन्न वैदिक मंत्रोच्चारण के
मध्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि
आज प्रातः 10 बजे से यमुना भक्तों को

जागृत्क करने के उद्देश्य से संत-महात्माओं द्वारा शहर में एक जागृत्कटारें निकाली जाणी। ऐली थंग गां घाट से प्रारम्भ होकर लाल दरवाजा, चौक बाजार, डोरी बाजार, स्वामी घाट, छठा बाजार, होली गेट, कोतवाली रोड, भरतपुर गेट, चीयामंडी होले हट्ट पुनः लाल दरवाजा पहुँचकर संपन्न होणी। उसके उपरान्त दोपहर 12 बजे प्रसाद का वितरण होणी। कार्यक्रमा का समापन सांय 7 बजे होले होले महा दीपन के बाद भव्य महाअरारी के साथ होना।¹⁴ अनिल शर्मा ने बताया कि इस कार्याक्रम में भाग लेने के लिए ब्रज के अलावा अन्य जिले व प्रान्तों से भी वसुना भक्त आ रहे हैं।

दाऊजी मंदिर पर हुआ देवी जागरण

मथुरा। चौमूँहा करबे के दाऊद मोहल्ला स्थित ब्रज के राजा दाऊजी मंदिर पर नवदुर्गा महोत्सव के उपलक्ष्य में दाऊजी सेवा मंडल के भक्तों ने देवी जागरण कराया। जागरण में रात भर देवी भक्त, मां की धुनों पर झूमते रहे। बड़ी संख्या में भक्तों ने जागरण में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया।



मथुरा के किसान की मृत्यु नहीं हुई है। इस संबंध में कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए ज्ञापन दिया। प्रदर्शन से पूर्व सभा को संबोधित करते हुए भाजपा ब्रज क्षेत्र की मंत्री सुश्री पूनम बजाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और अगर सही मुआवजा

नहीं मिला तो सड़क से विधानसभा से
सपा की अखिलेश सरकार के
खिलाफ उग्र आंदोलन किया जायेगा
किसानों को अगर कोई राहत नहीं दी
गयी तो भाजपा बड़ा जान आंदोलन
करेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन व
जिला प्रशासन की होगी। भाजपा के
जिला महामंत्री बलदेव विधासभा के

डीआईजी स्टाम्प ने सब रजिस्ट्रार आफिस का किया निरीक्षण



भी किये। इस अवसर पर प्रभारी उपनिबन्धक विष्णु प्रताप यादव डीआईजी सहायक सियाराम यादव, लिपिक हैदर अली, भूप सिंह पाल, कमलेश पाल, आदि मौजूद थे।

प्रभारी पूर्व विधायक अजय कुमार पौड्या ने कहा कि बलवीय विधासभा में फरह ब्लक के गंगा धार भंडया के विजय सिंह सहोदरा के राशन सिंह आदि गांवों में किसान अपनी जुताई बुआई के पश्चात जो फसल तैयार हुई उससे खर्बाद होये देख किसान दम तोड़ रहा है प्रशासन शासन को नुकसान के आलंकार की न्यूनतम रिपोर्ट भेज रहा है इस अवसर पर सभा को पूर्व विधायक प्रनतपाल सिंह, ओमप्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष सुनीत, मनोज उपाध्याय, प्रमोद बीकानेरी, राकेश सिंह, अध्यक्ष विभो गोरख, सिलग्राम चौधरी, तारक नाथ पाण्डेय चौधरी बलवीर सिंह, गौरीशंकर वर्मा, रामेश्वर सारस्वत, संजय, दिनेश शर्मा आदि भारी संख्या में भागीभा कार्यक्रम मौजूद रहे। सभा का संचालन राय देवत मंडल के अध्यक्ष चौधरी राकेश सिंह आहवा में किया।

इधर माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिटों के अन्तर्गत आने वाले परन्तु कार्य से विरत पूर्व दैनिक बेतन कर्मी डीआईजी से न मिल पाने का अफसोस भी जताते रहे।

डाकघर ने निकाली जागरण रैली

अलीगंज/एटा। भारतीय डाक विभाग द्वारा बालिकाओं की सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्टमास्टर सुभाष चन्द्र दुबे अलीगंज के नेतृत्व में पंचदश जगणर रैली निकालने गयी। इसमें पोस्टर भी बाँटे गए और एलाउन्स भी पूरे नगर में कक्षाया गया। प्रातः जाकारी के अनुसार यह योजना केवल 1 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं के लिए है। जिसमें 9.1 प्रतिशत ब्याज वह भी एक वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति एक जमाकर्ता को एक वर्ष में न्यूनतम एक हजार व अधिकतम 150000 रुपये जमा करने की सुविधा है। और 18 वर्ष की होने पर पचास प्रतिशत राशि निकालने का प्राबधान है। लेकिन जब बेटी 21 साल की होगी तो उसे 641092 रुपये की धराशायि प्राप्त होगी। जगणर रैली के अलावा आजकल डाक कर्मि जमा कर्ताओं से डाकखाने में इस योजना में पैसा डालने के लिए प्रेरित जरूर करते है। जिसमें विशेष योगदान पोस्टमास्टर सुभाष चन्द्र दुबे, देता सिंह यादव आदि कर्मियों का दिखाई देता है। यह स्कीम 14 वर्ष तक की है।

मैटाडोर ने ट्रॉली में मारी
टक्कर, एक की मौत

मथुरा। नरी सेमरी देवी का मेला देखने ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे एक परिवार का भी मैडाडोर ने टक्कर मार दी जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी तथा आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राम सिंह पुत्र खजान सिंह निवासी बरारी अपने परिवार के लोगों के साथ ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर छाता स्थित नरी सेमरी देवी मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहा था तो केडी डेप्टलम कोलेज के निकट तेजगति से आती एक मैडाडोर ने ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी जिससे राम सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी तथा बचन सिंह, भगत सिंह, गगन, सुरज, अतुल, गोदायज सहित अन्य परिजन घायल हो गये।

पुलिस भर्ती में धांधली पर रालोद और विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन

मथुरा। उग्र पुलिस में भर्ती में धांधली और प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को हुए मुकाना को लेकर आधा युवा राष्ट्रीय लोकदल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जापान सौकरक पुस्तिक भर्ती में धांधली रोकेने और किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाणे की मांग की। रालेद जिलाध्यक्ष यदुवीर सिंसादिया और रामरसपाल सिंह पीनान ने कहा कि पुलिस भर्ती में यूपी के सिर्फ तीस जिलों को महत्व दिवा गया है। पुलिस भर्ती मैरिट के आधार पर हो न कि जाति के आधार पर। उन्होंने किसानों को ओलावृष्टि से हुए मुकाना और जिन किसानों की मौत हुयी है उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा दिलाये जाने की मांग की। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट को रालेद पदाधिकारी ने एक जापान भी सौंपा। इस अवसर पर रालेद मोडिया पधारी पवन चतुर्वेदी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहा है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में मानकों का अपालन नहीं किया गया है। गलत मैरिट के आधार पर इंट्राने को मेडिकल प्रवेश पर जागी कर दिये हैं। एट्टा, इट्टाया मैसपुर के अर्थर्थयोग को पूरा मोका दिया गया है जिससे छात्रों में निराशा है। उन्होंने मांग की कि भर्ती की सीबीआ



जांच हो, मेडिकल प्रवेश पत्र जाति, धर्म आरक्षण और मैन परीक्षा के आधार पर दिये जायें। हाईकोर्ट की निगरानी में भर्ती हो। जब तक सीबीआई जांच न हो तब तक मेडिकल परीक्षा रोक की जाये। राज्यपाल को संबंधित जापान देने वालों में जिला संयोजक शैलू चौधरी, आकाश चौधरी, उमेश शर्मा, दीपक गोला, राहुल सारस्वत, सचिन, गिरीश, करन, भानु आदि उपस्थित थे।



O. P. CHAINS LIMITED

CIN: U27205UP2001PLC026372

Our Company was originally incorporated on December 4, 2001, as "O. P. Chains Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur. Subsequently, our Company has received a Certificate of Commencement of Business dated December 7, 2002 issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur. For details, please see section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 108 of the Prospectus.

Registered Office: 8/16 A, Seth Gali, Agra - 282003, Uttar Pradesh, India; Tel: +91- 0562-3059117; Fax: +91-0562-4044990;
Email: cs@opchainsltd.com; **Website:** www.opchainsltd.com
Contact Person: Mrs. Swapnila Gupta (Company Secretary & Compliance Officer)

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 18,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF O. P. CHAINS LIMITED ("O. P. CHAINS" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 11.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 1.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 203.50 LAKHS, OF WHICH 1,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 11.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 11.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 17,50,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 11.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 192.50 LAKHS (HEREINAFTER REFERRED TO AS "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.00 % AND 25.54 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 11.00. THE ISSUE PRICE IS 1.1 TIMES OF THE FACE VALUE

THIS ISSUE IS BEING IN TERMS OF CHAPTER XB OF THE SEBI (CDR) REGULATIONS, 2009 AS AMENDED FROM TIME TO TIME.
 THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 43(4) OF THE SEBI (CDR) REGULATIONS, 2009

FOR FURTHER DETAILS SEE "ISSUE RELATED INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 210 OF THE PROSPECTUS
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 10,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 10,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details, check section on ASBA below.

PLEASE NOTE THAT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SEBI CIRCULAR BEARING NUMBER CIR/CFD/DIL/1/2011 DATED APRIL 29, 2011, ALL APPLICANTS WHO ARE QIBS, NON - INSTITUTIONAL INVESTORS SHALL MANDATORILY MAKE USE OF ASBA FACILITY. ALL QIBS AND NON-INSTITUTIONAL INVESTORS, COMPLYING WITH THE ELIGIBILITY CONDITIONS OF SEBI CIRCULAR DATED DECEMBER 30, 2009, MUST MANDATORILY INVEST THROUGH THE ASBA PROCESS.

NON-RETAIL INVESTORS HAVING BANK ACCOUNT WITH THE SCSSs THAT ARE PROVIDING ASBA IN CITIES / CENTERS WHERE NON-RETAIL INVESTORS ARE LOCATED ARE MANDATORILY REQUIRED TO MAKE USE OF ASBA FACILITY, OTHERWISE APPLICATIONS OF NON-RETAIL INVESTORS ARE LIABLE FOR REJECTION. ALL NON-RETAIL INVESTORS ARE ENCOURAGED TO MAKE USE OF ASBA FACILITY WHEREVER SUCH FACILITY IS AVAILABLE.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. OM PRAKASH AGARWAL, MR. ASHOK KUMAR GOYAL & MR. SATISH KUMAR GOYAL

Listing: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the BSE SME Platform. In terms of the Chapter XB of the SEBI (CDR) Regulations, 2009, as amended from time to time, we are not required to obtain an in-principle listing approval for the shares being offered in this issue. However, our Company has received an approval letter dated November 19, 2014 from BSE for using its name in this offer document for listing of our Equity Shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE").

Disclaimer Clause of SEBI: Since the issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (CDR) Regulations 2009, the Draft Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 198 of the Prospectus.

Disclaimer Clause of BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has not been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The Investors are advised to refer to page 204 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (CDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects As Per Memorandum of Association of Our Company: 1. To takeover the existing business of M/s O. P. Chains & Others AOP and its all assets and liabilities and other title, rights, goodwill or any other assets or liabilities acquired or self generated. To acquire all its tangible and non tangible assets and liabilities of the above AOP. 2. To carry on the business of manufacture, dealers, exporter, importer of precious and non precious metal in India or Outside India. The precious metal will include gold, silver, platinum or any metal or compound which is termed as precious metal on the International or national recognized metal exchange. The non precious metal includes the iron, copper, aluminum etc or any metal or compound which is termed as precious metal on the International or national recognized metal exchange. 3. To carry to business of manufacture, dealers, exporter, importer of jewelry, fancy items, daily use items made up of precious and non-precious metal in India or outside India. The precious metal will include gold, silver platinum or any metal or compound which is termed as precious metal on the International or national recognized metal exchange. The non precious metal includes the iron, copper aluminum etc. or any metal or compound which is termed as precious metal on the International or national recognized metal exchange. 4. To open the subsidiary or wholly owned subsidiary in India or outside India to transact the business of manufacture trading importer, exporter of precious metal, non precious metal, items of personal or industrial use made up from the precious metal and non precious metal. 5. To carry on the business of lending money as loan or financial assistance, make investments in securities or projects or business of other nature, accept money from others, to act as merchant bankers, investors, lenders occupiers, installers, to draw, make, accept, endorse, discount, negotiate, execute and issue bills of exchange, promissory notes, and other negotiable instruments, subjects to approval of Reserve Bank of India. 6. To purchase, acquire take on lease or in exchange or in any other lawful manner make investment in Property and to turn the same in to account, develop the same and dispose off or maintain the same and to create Land Banks and to build townships, commercial complex, or other buildings or conveniences thereon and to equip the same or any part thereof with all or any amenities or conveniences and to deal with the same in any manner what so ever and to carry on the business as planners, designers, architects, engineers, promoters, consultants, advisors, interior decorators, real estate agents in all the matters connected with real estate and building construction and to promote, manage and administer co-operatives, groups housing societies for buying, maintain and developing lands, building, hereditament, facilities, amenities and to manage sell, allot lease out houses, apartments, flats, shops, offices to the shareholders, members, participants of such co-operatives, groups, societies or to any other person on their behalf and to invest the fund of the Company in Securities, Shares, Government Securities, Commodities and Derivatives from time to time in the ordinary courses of business.

Amount of Share Capital of Our Company And Capital Structure: Authorized Share Capital of ₹ 725 Lacs divided into 72,50,000 equity shares of Face Value of ₹ 10 each; Issued, Subscribed and paid-up Capital Prior to the Issue is ₹ 500 Lacs divided into 50,00,000 equity shares of Face Value of ₹ 10. Proposed Post Issue Paid-up Capital: ₹ 585 Lacs divided into 58,50,000 equity shares of ₹ 10 each.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is limited.

Signatories to MoA and AoA:

Original Signatories		Current Promoters	
Name	No. of Shares	Name	No. of Shares
Mr. Om Prakash Agarwal	20,100	Mr. Om Prakash Agarwal	9,08,100
Mr. Ashok Kumar Goyal	20,000	Mr. Ashok Kumar Goyal	8,70,000
Mr. Satish Kumar Goyal	20,000	Mr. Satish Kumar Goyal	8,70,000
Mr. Moon Goyal	1,000		
Mrs. Kusum Agarwal	4,000		
Mr. Kailash Chaud	1,000		
Mrs. Heera Devi	1,000		

LEAD MANAGER TO THE ISSUE



HEM SECURITIES LIMITED

203, Jaipur Tower, M.I. Road, Jaipur - 302 001, Rajasthan, India.

Tel No: +91 - 141 - 2378 608 / 2363 278

Fax No: +91 - 141 - 5101 757

Email: ib@hemonline.com;

Website: www.hemonline.com

Investor Grievance Email: redressal@hemonline.com

SEBI Registration No: INM000010981

Contact Person: Ms. Vinita Gupta

REGISTRAR TO THE ISSUE



BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

E2 Ansa Industrial Estate, Sakinagar Road, Sakdnaka, Ancher East, Mumbai- 400072

Tel: +91 22 40430200

Fax: +91 22 28475207

Email: ashok@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com

SEBI Registration No: INR000001385

Contact Person: Mr. Ashok Shetty

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Mrs. Swapnila Gupta

8/16 A, Seth Gali, Agra - 282003, Uttar Pradesh, India

Tel: +91- 0562-3059117;

Fax: +91- 0562- 4044990;

Email: cs@opchainsltd.com;

Website: www.opchainsltd.com

Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary accounts and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the issue. Full copy of the Prospectus is available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.hemonline.com and website of the company www.opchainsltd.com

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application forms can be obtained from the issuer Company: **O. P. CHAINS LIMITED**, Lead Manager **HEM SECURITIES LIMITED** and Collection Centers of the Bankers to the Issue: **ICICI Bank Limited** Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange. The list of SCSSs is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com. Application forms can also be downloaded from the website at www.bseindia.com